



The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Jharkhand

Press Release

रांची

07/07/2020

इकफ़ाई विश्वविद्यालय, झारखंड में "ऑनलाइन गायन और संगीत प्रतियोगिता" का संचालन

आज, इकफ़ाई विश्वविद्यालय, झारखंड द्वारा एक "ऑनलाइन गायन और संगीत प्रतियोगिता" का आयोजन किया गया। इस आयोजन को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें 32 से अधिक छात्रों और संकाय सदस्यों ने न केवल विश्वविद्यालय से बल्कि अन्य शैक्षणिक संस्थानों और रांची तथा उसके बाहर विभिन्न संगठनों के कामकाजी पेशेवरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सक्रिय रूप से भाग लिया और हिंदी, बंगाली और अंग्रेजी में गाने गाए। इस प्रतियोगिता में सभी तरह के गीतों को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम का सभी दर्शकों ने ऑनलाइन माध्यम से खूब आनंद लिया।

शीर्ष तीन गायकों के लिए पुरस्कार घोषित किए गए। जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार क्रमशः सुश्री अनीता रंजन, श्री अभिषेक कुमार और सुश्री स्वप्निश और सुश्री तृप्ति की मिला।

आयोजन में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो ओ आर एस राव ने कहा, की "कोविड-19 महामारी ने लोगों को विशेषकर छात्रों में भय, चिंता और दहशत पैदा कर दी है। लॉकडाउन और फिजिकल डिस्टेंसिंग मानदंडों के कारण, छात्र अलग-थलग महसूस कर रहे हैं जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जैसा कि सामान्य स्थिति बहाल होने में काफी समय लगेगा, हमारे पास नई जीवन शैली के लिए खुद को ढालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज की इस ऑनलाइन गायन और संगीत आयोजन उस दिशा में एक प्रयास है जहां हम एक आभासी दुनिया में एक संगीतमय शाम का आयोजन कर विभिन्न स्थानों से गायकों और दर्शकों को जोड़ कर भय, चिंता और दहशत को दूर कर सकते हैं।

=====